

प्रादर्श प्रश्न पत्र 2011
विषय – वाणिज्य समूह
कक्षा – बारवहीं

बही खाता एवं लेखाकर्म
Book-Keeping and Accountancy

समय– 3 घंटे
Time- 3 Hours

पूर्णांक– 100
Maximum Mark – 100

निर्देश–

- i. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- ii. प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर उत्तर लिखिए।
- iii. खण्ड अ में दिये गये प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके अन्तर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य/असत्य, सही जोड़ी बनाना, एक वाक्य में उत्तर तथा सही विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। $1 \times 5 = 5 \times 5 = 25$ अंक
- iv. खण्ड ब में प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं।
- v. प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक एवं प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना है।
- vi. प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक एवं प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना है।
- vii. प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक में प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक एवं प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है।

Instructions –

- i. All question are compulsory.
- ii. Please the instructions carefully before writing the answer.
- iii. In section A Q. No. 1 to 5 are objective type which contain fill up the Blank, True/False, match the column, one sentence answer and choose the correct answers. Each question is allotted 5 marks. $1 \times 1 = 5 \times 5 = 25$ Marks.
- iv. Internal options are given in Q. No. 6 to 20 in section B.
- v. Q. No. 6 to 10 carry 4 marks each and answer should be given in about 75 words.
- vi. Q. No. 11 to 15 carry 5 marks each and answer should be given in about 120 words.
- vii. Q. No. 16 to 20 carry 6 marks each and answer should be given in about 150 words.

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए।

- (अ) प्रेषण पर भेजा गया माल Dr किया जाता है।
- (i) प्रेषण खाते में (ii) प्रेषणी के खातों में
(iii) व्यापार खातों में (iv) प्रेषित माल खाते में
- (ब) आहरण पर ब्याज है।
- (i) फर्म की हानि (ii) साझेदारों की आय
(iii) फर्म की आय (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (स) साझेदारी का पुनर्गठन है।
- (i) साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाना
(ii) साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन
(iii) साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना
(iv) ख्याति के मूल्य से ख्याति खाता खोलना
- (द) साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है।
- (i) प्रवेश प्राप्त सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते में
(ii) नये साझेदार के पूंजी खाते में
(iii) पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में
(iv) लाभ हानि खाते में
- (इ) ऋण पत्र धारी होते हैं।
- (i) कंपनी के स्वामी (ii) कंपनी के सदस्य
(iii) कंपनी के लेनदार (iv) कंपनी के ग्राहक

Select the correct answer.

- (a) Goods sent on consignment is debited to -
- (i) Consignment Account (ii) Consignee Accounts
(iii) Trading Account (iv) Goods sent on consignment
- (b) Interest on drawing is -

- (i) Loss of firm (ii) Income by partners
 (iii) Income of firm (iv) None of above
- (c) Reconstitution of partnership is _
 (i) Additional capital introduced by partners
 (ii) Change in profit sharing Ratio of partners
 (iii) Allow interest on capital
 (iv) To Raise goodwill account by its value
- (d) profit on revaluation at the time of admission of a partners is transferred to -
 (i) Capital a/c of all partners including admitted partners
 (ii) Capital a/c of new partners
 (iii) capital a/c of old partners (iv) profit & loss a/c
- (e) Debenture holders are -
 (i) Owner of the company (ii) Member of the company
 (iii) Creditor of the company (iv) Customers of the company

प्रश्न 2. स्तंभ 'अ' के लिये स्तंभ 'ब' से चुनकर सही जोड़ियां बनाइये—

स्तम्भ अ	—	स्तम्भ ब
(अ) लाभ हानि खाता Dr किया जाता	—	लाभ हानि नियोजन खाता
(ब) फर्म से अवकाश लेना	—	बाँड
(स) विभाजन योग्य लाभ	—	प्रेषण हानि
(द) सम मूल्य पर भुगतान	—	औसत लाभ
(इ) ख्याति का मूल्यांकन	—	निवृत्ति
	—	सामान्य लाभ
	—	पूँजी खाता

Make the correct pair for column 'A' choosing from column 'B'.

Column A	-	Column B
(a) Profit and loss a/c is debited	-	P/L appropriation a/c
(b) To Take leave from the firm	-	Bond
(c) Divisible profit	-	consignment loss

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| (d) redeemed at perpar | - | Average profit |
| (e) Valuation of goodwill | - | Retirement |
| | - | General Profit |
| | - | Capital Account |

प्रश्न 3. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

- (i) परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है।
- (ii) प्रेषण पर भेजा गया माल प्रायः मूल्य पर प्रेषण खाते में..... दर्शाया जाता है।
- (iii) फर्म के विघटन के पश्चात् स्वयं का कर सकते हैं।
- (iv) जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें पत्र कहते हैं।
- (v) पुनर्मूल्यांकन खाता.....का खाता है।

Fill in the blanks.

- (i) In fluctuating capital method the closing balances of capital accounts areevery year.
- (ii) Goods sent on consignment is generally shown at in the consignment a/c
- (iii) After dissolution of the firm, partner can transact their own
- (iv) The debentures which can be changed into share are called debentures.
- (v) Revaluation Account is aaccount.

प्रश्न 4. निम्नलिखित का सत्य एवं असत्य में उत्तर दीजिये –

- (i) प्रेषक, प्रेषणी को कमीशन नकदी में देता है।
- (ii) ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है।
- (iii) साझेदार का नया अनुपात—पुराना अनुपात—त्याग अनुपात होता है।

- (iv) खुले बाजार से कंपनी स्वयं के ऋण पत्र क्रय कर सकती है।
(v) फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है।

Answer the following in true or false.

- i. Consignor pays commission to consignee in cash.
- ii. Good will is an intangible Assets.
- iii. $\text{New Ratio} - \text{old Ratio} = \text{Sacrificing Ratio}$.
- iv. The company can purchase own debentures in open markets.
- v. There is no difference between the dissolution of firm and dissolution of partnership.

प्रश्न 5. निम्न में प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए।

1. प्रेषित माल की हानि किसके द्वारा वहन की जाती है।
2. मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है।
3. क्या साझेदार का अंत न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर हो सकता है।
4. निर्गमित ऋणपत्रों का कम से कम कितना भाग लाभों में संचित करना अनिवार्य है।
5. वसूली खाते में फर्म की सम्पत्तियां किस मूल्य पर दर्शाई जाती हैं।

Answer each of the following in one sentence.

1. By whom the loss of consigned goods is born.
2. In whom the amount payable to deceased partner is paid.
3. Can a partnership dissolved without intervention.
4. What minimum part of the issued debentures is reserved out of profit.
5. At which value the assets of a dissolved firm are transferred to realization account.

प्रश्न 6. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले चार नियमों को समझाईये?

Explain the rules applicable in the absence of partnership agreement. (Any four)

अथवा

Or

पारस, विकास और नितिन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2008 को उनकी पूंजी क्रमशः 10000 रु, 8000 रु और 6000 रु है और लाभ वितरण का अनुपात 3:1:1 है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है तथा पारस को 800 रु और विकास को 600 रु प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। वर्ष में फर्म को 6200 रु का लाभ हुआ। प्रत्येक साझेदार ने वर्ष में निजी प्रयोग के लिये लाभ में से 500 रु निकालें। उपर्युक्त व्यवहारों के लिये लाभ हानि लेखा बनाईए व साझेदारी के पूंजी लेखें तैयार कीजिये।

Paras, Vikas and Nitin one partners in a firm on 1 Jan. 2008 their capital was Rs. 10,000, Rs. 8,000 and Rs. 6,000 respectively. Their ratio of profit distribution is 3:1:1 interest @ 5% is given on their capital and paras gets Rs. 800 and Vikas Rs. 600 per annum as salary during the year the firm earned profit of Rs. 6200 in the year each partner withdrew for personal use Rs. 500 from profit from the above statement prepare P/L, A/c and partner capital A/c.

प्रश्न 7.

अति अभिदान और अल्प अभिदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। (कोई चार)

Explain the difference between over subscription and under subscription.

(Any four)

अथवा

Or

पार्थ लिमिटेड ने सममूल्य पर 50 रु वाले 20,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे राशियां इस प्रकार देय थी आवेदन पर 20 रु आवंटन पर 20 रु शेष याचना पर 10 रु. केवल 18000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए सभी आवेदन स्वीकार कर लिये सभी राशियां प्राप्त हो गयी आवश्यक जर्नल पृविष्टियां कीजिये?

Parth limited invited application for 20,000 shares of Rs. 50 each at the amount being payable as under.

on application Rs. 20/- on allotment 20/- and balance call on Rs. 10/-

The application were received only for 18000 share and all of these were received give the necessary journal entries.

प्रश्न 8. अंशधारी एवं ऋणपत्र धारी में क्या अंतर है। (कोई चार लिखिए)

What is the difference between a shareholder and a debenture holder? (any four)

अथवा

Or

सोनिया लिमिटेड ने 100 रु वाले 4000 6% ऋणपत्र निर्गमित किये आवेदन पत्र पर 10 रु आवंटन पर 30 रु तथा याचना पर 60 रु प्रति ऋणपत्र की दर से राशि मंगवायी गयी सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गयी। जर्नल प्रवृष्टियां कीजिए।

Soniya Ltd. issued 4000, 6% debentures of Rs. 100 each payable Rs. 10 on application Rs. 30 on allotment and Rs. 60/- per debenture on call assuring that all the money were duly received draw up necessary journal entries in the books of company.

प्रश्न 9. अनुपात विश्लेषण के कोई चार उद्देश्य लिखिए। (कोई चार)

Explain the objectives of ration analysis (any four)

अथवा

Or

चालू अनुपात एवं तरल अनुपात में अंतर लिखिए (कोई चार)

Differentiate between current ratio and liquid ration. (any four)

प्रश्न 10. कोष प्रवाह विवरण के चार महत्व लिखिए। (कोई चार)

Explain the importance of funds flow statement? (any four)

अथवा

Or

निम्नलिखित समकों से संचालन कोष की गणना कीजिए।

विवरण	31 मार्च 2008	31 मार्च 2009
	रु.	रु.
1. लाभ हानि नियोजन खाता	9000	12000
2. सामान्य संचय	6000	7500
3. ख्याति	3000	1500
4. प्रारंभिक व्यय	1800	1200
5. ह्रास हेतु प्रावधान	3000	3600
6. प्रस्तावित लाभांश	1000	2000

From the following data calculate funds from operations –

Particular	31 March 2008	31 March 2009
	Rs.	Rs.
(1) P/l appropriation a/c	9000	12000
(2) General reserve	6000	7500
(3) Good will	3000	1500
(4) preliminary expenses	1800	1200
(5) provision for depreciation	3000	3600
(6) proposed dividend	1000	2000

प्रश्न 11. सामान्य हानि एवं असामान्य हानि में क्या अंतर है? (कोई पांच)

What is the difference between normal loss and abnormal loss? (any five)

अथवा

Or

बनारसी दास ने इंदौरीलाल को 5000 रु. का माल प्रेषण पर भेजा और उस पर 4000 रु. का विपत्र अग्रिम के लिए खीचा बनारसी दास ने 475 रु. रेल भाड़ा और 125 रु. अन्य व्यय के दिये।

इंदौरीलाल ने 250 रु. चुंगी और भाड़ा के दिये उसने आधा माल उधार 4200 रु. में बेचा और शेष का आधा 2000 रु. में नकद बेचा इन्दौरीलाल को सकल विक्रय पर 2.5% कमीशन मिलता है। प्रेषण खाता बनाइये।

Banarsidas sends out a consignment to indorilal of the value of Rs. 5000 and drawing a bill on the later for Rs. 4000 as on advance against the same. Banarsidas also pay Rs.475 for freight and Rs. 125 other expenses.

Indorilal clears the goods by paying Rs. 250 for octroi and cartage he sales on credit half the goods for Rs. 4200 and half of the remaining is sold of cash at Rs. 2000.

Indorilal gets 2.5 commission on gross proceeds prepare consignment A/c.

प्रश्न 12. ख्याति की प्रकृति के अनुसार उसके प्रकार समझाइये।

According to nature of good will explain its types?

अथवा

Or

एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 80,000 रु. है फर्म का औसत लाभ 9000 रु. है। ऐसे व्यापार पर 7.5% आय अपेक्षित है अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिय?

Capital of business of a firm is Rs. 80,000 Average profit of the firm is Rs. 9000 normal return in such business is expected at 7.5%. Find the value of goodwill on the basis of capitalized value of super profit.

- प्रश्न 13. निवृत्त साझेदार के देय राशि के भुगतान की विधियां समझाईये।
Explain the different method of payment of amount due to retired partner?

अथवा

Or

अजय और बलदेव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं 31 दिसम्बर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न है :-

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
बैंक— अधिविकर्ष	5,000	रोकड़	10,000
देयविपत्र	7,000	देनदार	20,000
लेनदार	8,000	स्टाक	10,000
पूंजी— अजय	20,000	उपस्कर	10,000
बलदेव	10,000		
	<u>50,000</u>		<u>50,000</u>

उन्होंने चेतन को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया वह 8000 रु. पूंजी के एवं 6000 रु. ख्याति के नकद लाता है फर्नीचर का मूल्य 16000 रु. एवं स्ट्राक का मूल्य 8000 रु. आंका गया लेनदार पर 10% कटौती हेतु संचय किया गया पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता बनाईये।

Ajay and Baldav are equal partners in a firm their balance sheet as on 31 Dec. 2007 is as follows -

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Bank overdraft	5,000	Cash	10,000

B/L	7,000	Debtors	20,000
Creditor	8,000	Stock	10,000
Capital – Ajay	20,000	Furniture	10,000
Baldav	10,000		
	<u>50,000</u>		<u>50,000</u>

They admitted Chetan as a partner for $\frac{1}{4}$ share he brought Rs. 8000 as capital and Rs. 6000 as good will in cash furniture was Valued Rs. 16000 and stock at Rs. 8000 provision for discount on creditor was created @ 10%. Prepare revaluation a/c and partners capital a/c.

प्रश्न 14. अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं प्रविष्टी सहित समझाइये।

What is calls in arrears. Explain with entry?

अथवा

Or

एक कंपनी को अधिकृत पूंजी 3,00,000 है जो 100 रु. वाले 1000, 12% पूर्वाधिकारी अंश एवं 10 रु. वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है इनमें से 800, 12% पूर्वाधिकारी अंशों एवं 16000 समता अंशों को इस शर्त पर निर्गमित किया गया कि इसकी संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ आनी चाहिए सभी अंशों को जनता द्वारा लिया गया और इन पर वांछित राशि कंपनी को प्राप्त हो गयी पंजी प्रविष्टी कीजिए।

The authorized capital of a company is Rs. 3,00,000 which is divided in to 1000, 12% preference shares of Rs. 100 each and 20,000 equity shares of Rs. 10 each out of these shares 800 12% preference, share and 16000 equity shares are issued on the condition that full Amount of these shares will be paid on application all these share were taken up and paid by public pass the necessary journal entries in the books of company.

प्रश्न 15. कंपनी के चिट्ठे में निम्न स्थायी संपित्त को किस क्रम में लिखेंगे।

कल एवं यंत्र, भूमि, ख्याति, भवन, रेल्वे साइडिंग फर्नीचर एवं फिटिंग, जीवित स्टाक, वाहन विशिष्टाधिकार, पट्टे पर संपत्ति।

In what order will the following fixed assets be written in company's balance sheet building, siding, furniture and fitting, live stock, vehicle, patents right, leasehold property.

अथवा

Or

कंपनी के उर्ध्वाधर चिट्ठे का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।

Present the verticle from of balance sheet of a company?

प्रश्न 16.

साझेदारी विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर समझाईये। (कोई छः)
State the difference between the dissolution of partnership and partnership (any six)

अथवा

Or

अ और ब ने 31 दिस. 2007 को अपने व्यवसाय के समापन का निर्णय लिया उस तिथि को उनका चिट्ठा निम्न था :-

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
लेनदार	12000	रोकड़	2000
A का ऋण	16000	देनदार	10000
पूंजी खाते		स्कंध	40000
A - 40000	60000	प्लॉट	20000
B - 20000		फिक्चर्स	8000
		ख्याति	8000
	<u>88000</u>		<u>88000</u>

साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। विविध देनदान से 7,4000 रु. वसूल हुए, स्कन्ध से 37,000 रु. प्लांट एवं फिक्चर्स से उनके पुस्तकीय मूल्य का 80% और ख्याति से 12000 रु. वसूल हुए। लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया और समापन की लागत 1200 रु. हुई। वसूली खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए।

A and B decided to dissolve their business on 31 Dec. 2007 on that date their balance sheet stood as follows –

Liab	Amt	Assets	Amt
Creditor	12000	Cash	200
A's loan	16000	Debtors	10000
Capital a/c		Stock	40000
A- 40000	60,000	Plant	20000
B- 20000		Fixtures	8000
		Goodwill	8000
	88000		88000

Partner sharing profits & losses in the ratio of capital sundary debtor realised Rs 7400, stock Rs. 37000, plant & fixture realized 80% of their book value and goodwill realized Rs 12000 creditors paid off at 5% discount and cost of dissolution amounted to Rs. 1200.

Prepare the realization a/c and partner capital a/c

प्रश्न 17. अंशों के हरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइये।

Explain the share forfeited process?

अथवा

Or

रमेश ने एक्स लि. के रु. 10 वाले 1000 अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये आवेदन पर 2 रु. आवंटन पर 3 रु. प्रथम याचना पर 2 तथा द्वितीय याचना पर 3 रु. अपने आवेदन तथा आवंटन की राशि पूरी चुका दी किन्तु प्रथम याचना एवं अंतिम याचना राशि नहीं चुका सका अतः संचालकों ने उसका सारे अंश

जब्त कर लिए और उन्हें नकद 9000 रु. पुनर्निर्गमित कर दिया कंपनी की पुस्तकों में अंश हरण, पुनर्निर्गमन एवं हस्तांतरण की जर्नल प्रवृष्टि कीजिए।

Ramesh applied for 1000 shares of Rs. 10 each in X limited payable Rs. 2 per share on application and allotment Rs 3 per share and Rs 2 per share on first call and 3 per share on second call he paid application & allotment duly but failed to pay first call and final call manes the directors for-feited all his shares and re issued the same for Rs. 9000 for cash.

Pass for-feited, Reissued and transfer entries in book of company.

प्रश्न 18. ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए (कोई छः)

Explain the various types of debentures? (any six)

अथवा

Or

कविता ट्रेडिंग कंपनी लि. ने रु. 100 वाले 4000 5% ऋण पत्र रु. 10 प्रति ऋणपत्र प्रीमियम पर निम्नप्रकार निर्गमित किये आवेदन पर रु. 20 आवंटन पर 50 (प्रीमियम सहित) तथा याचना पर रु. 40 प्रति ऋणपत्र कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए।

Kavita trading com. Ltd. issued 4000 5% debentures of Rs. 100 each at premium of Rs. 10 per debenture payable Rs. 20 on application Rs. 50 (Including premium) on allotment and Rs. 40 per debenture on call pass necessary journal entries in the book of the company.

प्रश्न 19. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व को समझाइये। (कोई छः बिन्दु)

Explain the importance of significance of financial analysis (any six)

अथवा

Or

निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनात्मक आय विवरण बनाईये।

विवरण	वर्ष 2008	वर्ष 2009
	रु.	रु.
शुद्ध विक्रय	15000	20,000
बेचे गये माल की लागत	8000	9000
प्रशासनिक और कार्या. व्यय	1000	1200
विक्रय एवं वितरण व्यय	800	1000
गैर संचालन व्यय	200	200
गैर संचालक आय	400	300
आयकर	1250	1500

Prepare comparative income statement from the following particulars for the year ended 31 march 2008 and 31 march 2009 –

Perticular	Year 2008	Year 2009
	Rs.	Rs.
Net sales	15000	20000
Cost of goods sold	8000	9000
Administration and office exp.1000		1200
Selling and distribution exp. 800		1000
Non operating exp.	200	300
Non operating income	400	300
Income tax	1250	1500

प्रश्न 20. रोकड़ वहाब विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर स्पष्ट कीजिये। (कोई छः बिन्दु)

Explain the difference between cash flow statement and cash budget (any six)

अथवा

Or

निम्न सूचनाओं से अप्रत्यक्ष विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए।

	रूपये
शुद्ध लाभ	7,500
वेतन	5,000
प्लान्ट पर ह्यस	1,800
प्लान्ट के विक्रय पर लाभ	7,00
ब्याज प्राप्त	2,500
विनियोगों के विक्रय पर लाभ	2,500
चालू दायित्व में वृद्धि	20,000
चालू संपत्ति में वृद्धि	10,000

Calculate Net Cash flow from operating Activities by Indirect method from following information's:

	Rs.
Net Profit	7,500
Salaries	5,000
Dep. on Plant	1,800
Loss on Sale of Plant	7,00
Interest Received	2,500
Profit on Sale of Investment	2,500
Increase in Current Liabilities	20,000
Increase in Current Assets	10,000

— — — — —

आदर्श उत्तर
विषय – वाणिज्य समूह
कक्षा – बारवहीं

बही खाता एवं लेखाकर्म
Book-Keeping and Accountancy

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर –

उत्तर 1. सही विकल्प –

- (i) प्रेषण खाते में
- (ii) फर्म की आय
- (iii) साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन
- (iv) पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में
- (v) कम्पनी के लेनदार

प्रत्येक सही लिखने पर 1 अंक कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 2. सही जोड़ी बनाईये –

- (अ) प्रेषण हानि
- (ब) निवृत्ति
- (स) लाभ हानि नियोजन खाता
- (द) बांड
- (इ) औसत लाभ

प्रत्येक सही लिखने पर 1 अंक कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 3. रिक्त स्थान की पूर्ती कीजिये –

- (i) बदलता
- (ii) लागत मूल्य
- (iii) व्यापार

- (iv) परिवर्तनशील ऋण पत्र
- (v) नाम मात्र का खाता

प्रत्येक सही लिखने पर 1 अंक कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 4. निम्नलिखित का सत्य/असत्य में उत्तर दीजिये –

- (i) असत्य
- (ii) सत्य
- (iii) असत्य
- (iv) सत्य
- (v) असत्य

प्रत्येक सही लिखने पर 1 अंक कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 5. निम्न में से प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिये –

- (1) प्रेषित माल की हानि प्रेषक द्वारा वहन की जाती है।
- (2) मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है।
- (3) हाँ, साझेदार का अंत न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर हो सकता है।
- (4) निगमित ऋणपत्रों का कम से कम 50% भाग लाभों में संचित करना अनिवार्य है।
- (5) वसूली खाते में फर्म की सम्पत्तियां पुस्तक मूल्य पर दर्शाई जाती है।

प्रत्येक सही लिखने पर 1 अंक कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 6. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम –

1. **पूंजी पर ब्याज देय नहीं** :- व्यापार में लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

2. **आहरण पर ब्याज नहीं** :- साझेदारों द्वारा फर्म से आहरित राशि पर फर्म कोई भी ब्याज नहीं लेती है।
3. **साझेदारी के ऋण पर 6% ब्याज** :- यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी के अलावा व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो ऐसे ऋण पर अधिनियम के अनुसार 6% वार्षिक ब्याज दिया जायेगा।
4. **लाभ हानि का समान विभाजन** :- साझेदारी फर्म में होने वाले लाभ का विभाजन सभी साझेदारों में समान रूप से होगा।

(उक्त के अतिरिक्त भी बिन्दु हो सकते हैं एक बिन्दु की संक्षिप्त वर्णन पर 1 अंक देना है। छात्र द्वारा कोई भी 4 बिन्दुओं को समझाने पर 4 अंक दिये जावें)

अथवा

लाभ हानि नियोजन खाता

Dr.

विवरण	राशि	विवरण	राशि
पूंजी पर ब्याज से		शेष	6200
पारस – 500		आ / ला	
विकास – 400			
नितिन – 300	1200		
वेतन खात से			
पारस – 800			
विकास – 600	1400		
शुद्ध लाभ			
पूंजी खाले में			
हस्तान्तरित			
पारस – 2160			
विकास – 720	3600		

नितिन – 720			
	6200		6200

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

परिवर्तनशील पूंजी पद्धति –

साझेदारों के पूंजी खाते

विवरण	पारस	विकास	नितिन	विवरण	पारस	विकास	नितिन
अहरण	500	500	500	शेष आ/ला	10000	8000	6000
खाता				पूंजी पर ब्याज	500	400	300
शेषनी	12960	9220	6520	से वेतन खाता	800	600	—
है				से लाभ हानि	2160	720	720
				नि. खाता			
	13460	9700	7020		13460	9700	7020

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 7. अतिअभिदान व अल्प अभिदान में अंतर

क्र.	अंतर का आधार	अति अभिदान	अल्प अभिदान
1	अर्थ	निर्गमित अंशों की तुलना में अधिक आवेदन आने को अतिअभिदान कहते हैं।	निर्गमित अंशों की तुलना में कम आवेदन आने को अल्प अभिदान कहते हैं।
2	आधिक्य राशि का समायोजन	किया जाता है।	नहीं किया जाता है।
3	राशि की	निर्गमित अंशों के आधार	आवेदन पत्रों की संख्या

4	गणना अन्य नाम	पर होता है। अधिकतम अभिदान है।	के आधार पर होता है। न्यूनतम अभिदान।
---	------------------	----------------------------------	--

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

पार्थ लि. की

जर्नल

तिथि	विवरण	खाता पृष्ठ क्र.	राशि Dr.	राशि Cr.
1	बैंक खाता Dr. समता अंश आवेदन खाता से		360000	360000
2	समता अंश आवेदन खाता Dr. समता अंश पूंजी खाता से		360000	360000
3	समता अंश आवंटन खाता Dr. समता अंश पूंजी खाता से		360000	360000
4	बैंक आवंटन खाता Dr. समता अंश पूंजी खाता से		180000	180000
5	समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता Dr. समता अंश पूंजी खाता से		360000	360000
6	बैंक खाता Dr. समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से		180000	180000

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 8. अंशधारी एवं ऋणपत्रधारी में अंतर

क्र.	आधार	अंशधारी	ऋणपत्र धारी
1	सदस्य	अंशधारी कम्पनी के सदस्य होते हैं।	ऋणपत्र धारी कम्पनी के लेनदार होते हैं।
2	मताधिकार	अंशधारियों को मताधिकार होता है।	ऋणपत्र धारियों को सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है।
3	सम्पत्ति पर अधिकार	कम्पनी की सम्पत्ति पर अधिकार होता है।	ऋणपत्र धारियों का सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होता है।
4	प्रतिफल	लाभांश के रूप में प्राप्त होता है।	ब्याज के रूप में प्राप्त होता है।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

Journal Entres

Bank	a/c	Dr.	40000	
	To 6% Deb Application			40000
(Being amount received on deb. application)				
6% Deb application	a/c	Dr.	40000	
	To 6% deb.			40000
(Being transfer of application money to dep. a/c)				
6% deb. allotment	a/c	Dr.	120000	
	To 6% dep. debenture a/c			120000
(Being allotment money due)				
Bank	a/c	Dr.	120000	
	To 6% deb. allotment			120000
(Being allotment money Rec.)				
6% Deb calls	a/c	Dr.	240000	
	To 6% debenture			240000
(Being call money due)				

Bank a/c Dr. 240000
 To 6% deb. calls 240000
 (Being call money Rec.)

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 9. अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य –

1. **कम्पनी की शोधन क्षमता जानने का उद्देश्य :-** अनुपात विश्लेषण के द्वारा कंपनी के शोधन क्षमता की जांच की जा सकती है। शोधन क्षमता अनुपातों की गणना कर यह पता लगाया जा सकता है कि क्या कंपनी के पास अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की अदायगी के लिए पर्याप्त साधन है।
2. **बजट बनाने का उद्देश्य :-** अनुपात विश्लेषण के द्वारा व्यवसाय की कमियों तथा अच्छाइयों का पता चल जाता है। जिससे बजट तैयार करने की सुविधा रहती है।
3. **वित्तीय आंकड़ों को जानने का उद्देश्य :-** अनुपात विश्लेषण द्वारा जटिल अंकों को सरल एवं समझने योग्य अंकों में बदला जा सकता है।
4. **महत्वपूर्ण सूचन प्राप्त करने का उद्देश्य :-** लेखांकन अनुपात ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के भावी विकास की योजना बनाने तथा अनुमान लगाने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

क्र.	आधार	चालू अनुपात	तरल अनुपात
1	संबंध	इसका संबंध चालू सम्पत्तियों एवं चालू दायित्वों से होता है।	इसका संबंध तरल सम्पत्तियों व तरल दायित्वों से होता है।
2	कार्य का माप	यह एक वर्ष के भुगतान की स्थिति बताता है।	यह एक माह के भुगतानों की स्थिति बताता है।

3	प्रमाणित अनुपात	2:1 है।	1:1 है
4	सूत्र	चालू सम्पत्ति ÷ चालू दायित्व	तरल सम्पत्ति ÷ चालू दायित्व

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 10. कोष प्रवाह विवरण पत्र का महत्व –

- 1. बजट निर्माण करने में सहायक :-** स्थाई सम्पत्ति अधिग्रहण, कार्यशील पूंजी, लाभांश, भुगतान व ऋण शोधन आदि के संबंध में पूर्वानुमान लगाकर बजट का निर्माण किया जाता है।
- 2. ऋण प्राप्त करने में सहायक :-** इस विवरण के आधार पर बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं उधार लेने वाली संस्था की तरलता स्थिति का व शोधन क्षमता के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करती है।
- 3. दो वर्षों की तुलना करने में सहायक :-** इस विवरण की सहायता से चिट्ठा व लाभ-हानि खाता में सही तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है।
- 4. वित्तीय विश्लेषण करने में सहायक :-** कोष्ठा बहाव विवरण वित्तीय विश्लेषण का यंत्र है और यह कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की व्याख्या करता है और तरता पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है।
- 5. योजना बनाने में सहायक :-** इस विवरण से वित्तीय योजना में पर्याप्त सहायता मिलती है। क्योंकि इसके माध्यम से अतिरिक्त फंड की आवश्यकता उसको प्राप्त करने के साधन व अवधि को निर्धारित किया जा सकता है।
- 6. प्रबंधकीय नितियां के निर्धारण में सहायक :-** फंड विवरण का अध्ययन करके अंशधारी और विनियोक्ता सरलता पूर्वक लाभार्जन शक्ति, लाभांश भुगतान, कार्यशील पूंजी का प्रभावी प्रयोग आदि के संबंध में अपनाई गई प्रबंधकीय नितियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

संचालन से कोष की गणना

विवरण	राशि रुपये में
शुद्ध लाभ (12000-9000) जोड़ा	3000
प्रस्तावित लाभांश (चालू वर्ष)	2000
सामान्य संचय में हस्तान्तरित	1500
प्रारंभिक व्यय अपलिखित	600
ह्रास के लिये आयोजन	600
ख्याति का अपलेखन	1500
संचालन से प्राप्त कोष	9200

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 4 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 11.

क्र	आधार	सामान्य हानि	असामान्य हानि
1	कारण	ये प्राकृतिक कारणों से होती है।	ये आप्राकृतिक कारणों से होती है।
2	लेखा	इसका लेखा नहीं किया जाता है।	इसका लेखा किया जाता है।
3	मात्रा	कम मात्रा में होती है।	अधिक मात्रा में होती है
4	पूर्व	ये पूर्व निश्चित होती है।	ये पूर्व निश्चित नहीं होता

5	निश्चित बीमा	इसके विरुद्ध बीमा नहीं होता है।	है। इसके विरुद्ध बीमा किया जाता है।
---	-----------------	---------------------------------	--

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

प्रेषण लेखा

Dr.

विवरण	राशि	विवरण	राशि
To प्रेषित माल खाता	5000	By	
To रोकड़ खाता	600	इंदौरी लाल	
(475+125)		उधार – 4200	
To इंदौरी लाल	250	नगद – 2000	6200
व्यय		by	
To कमीशन खाता	155	स्टॉक खाता	1462.60
To लाभ हानि खाता	1657.50		
	7662.50		7662.50

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 12. ख्याति के प्रकार –

(A) बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति/स्थायी ख्याति –

ऐसी ख्याति जो एक स्थान पर स्थिर रहती है अर्थात् बिल्ली की तरह स्थान नहीं छोड़ती है उसे हम बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं।

(B) कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति –

व्यक्ति ख्याति– ऐसी ख्याति जो व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है ओर वह हमेशा व्यापारी के साथ-साथ चलती है अर्थात् कुत्ते की भांति स्वामी भक्त होती है ऐसी ख्याति को हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं।

(C) चूहे के स्वभाव वाली ख्याति/परिवर्तनशील ख्याति – ऐसी ख्याति जो चूहे के स्वभाव के अनुरूप एक स्थान व व्यापार में स्थिर नहीं रहती ऐसी ख्याति को चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

$$\begin{aligned}
 & \text{अथवा} \\
 \text{ख्याति} &= \frac{\text{अधिलाभ} \times 100}{\text{दर}} = \frac{3000 \times 100}{7.5} = 4000 \\
 \text{अधिलाभ} &= \text{औसत लाभ} - \text{सामान्य लाभ} \\
 &= 9000 - 6000 = 3000 \\
 \text{सामान्य लाभ} &= \frac{\text{पूंजी} \times \text{दर}}{100} \\
 &= \frac{80000 \times 15}{2 \times 100} = 6000
 \end{aligned}$$

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 13. निवृत्त साझेदार को देयराशि का भुगतान करने की विधियां :-

1. देय राशि का एक मुश्त भुगतान
2. देय राशि का किश्तों में भुगतान
3. देय राशि का बैंक से ऋण लेकर भुगतान
4. देय राशि का विपत्र स्वीकार कर भुगतान
5. वार्षिकी द्वारा भुगतान

1. **देय राशि का एक मुश्त भुगतान :-** यदि फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ अथवा बैंक शेष हो तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी समस्त देय राशि एक साथ दे दी जाती है। एक मुश्त भुगतान करने के लिए साझेदार

अपने व्यक्तिगत साधनों द्वारा अथवा बैंक या किसी व्यक्ति से भी ऋण लेकर नकद राशि जुटा सकते हैं। इस संबंध में निम्न लेखा किया जाता है :-

निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नामे
 रोकड़/बैंक खाते से
 (पूंजी की रकम चुकाई गई)

2. देय राशि का किस्तों में भुगतान :- जब फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ नहीं हो तो निवृत्तमान साझेदार या मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि से समझौता करके उसे देयक रकम उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है और निर्धारित अवधि वाली किस्तों में ब्याज सहित भुगतान की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित लेखे किये जाते हैं :-

1. निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता नामे
 निवृत्त साझेदार के ऋण खाते से
 (पूंजी को ऋण खाते में अन्तरित किया)

2. ब्याज खाता नामे
 निवृत्त साझेदार के ऋण खाते से
 (ऋण पर ब्याज देय हुआ)

3. निवृत्त साझेदार का ऋण खाता नामे
 रोकड़/बैंक खाते से
 (ऋण की किस्त का भुगतान किया)

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

I पुनः मूल्यांकन खाता

विवरण	राशि	विवरण	राशि
-------	------	-------	------

To स्टॉक खाता	2000	By फर्नीचर खाता	6000
To पूंजी खाता (लाभ)		By लेनदारों पर बट्टा	800
अजय – 2400	4800		
बलदेव – 2400			
	6800		6800

II साझेदारों के पूंजी खाते

विवरण	अजय	बलदेव	चेतन	विवरण	अजय	बलदेव	चेतन
शेषनी है	25400	15400	8000	शेष आ/ला	20000	10000	—
				By पुनः मूल्यांकन खाता	2400	2400	—
				By ख्याति खाता	3000	3000	—
				By रोकड़ खाता	—	—	8000
	25400	15400	8000		25400	15400	8000

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

- उत्तर 14. अवशिष्ट याचना का आशय – जब कोई अंशधारी आवेदन पर देय राशि चुका देता है किन्तु किसी कारण से आवंटन व याचनाओं की राशि देवें में अस्मर्थ रहता है तो ऐसी बकाया मांग को हम अवशिष्ट याचना कहते हैं।

पंजी प्रविष्टि

अवशिष्ट याचना खाता Dr.

To अंश आवंटन खाता

To अंश याचना खाता

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

तिथि	विवरण	खाता पृष्ठ क्र.	राशि Dr.	राशि Dr.
I	बैंक खाता Dr. To समता अंशधारियों का खाता To 12% पूर्वा. अंश धारियों का खाता (समता एवं 8% पूर्वा. अंश निर्गमन की राशि की एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर		240000	160000 80000
II	समता अंश धारियों का खाता Dr. To समता अंश पूंजी खाता (समता अंशधारियों से प्राप्त राशि पूंजी खाते में हस्तान्तरित करने पर)		160000	160000
III	8% पूर्वा. अंशधारियों का खाता Dr. To 8% पूर्वा. अंश पूंजी खाता (8% पूर्वा अंशधारियों से प्राप्त राशि पूंजी खाते में हस्ता. करने पर)		80000	80000

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 15. स्थाई सम्पत्तियों का सही क्रम –

- (1) ख्याति (2) भूमि (3) भवन (4) पट्टे पर सम्पत्ति (5) रेल्वे साइडिंग (6) कल यंत्र (7) फर्नीचर एवं फिटिंग्स (8) विशिष्टाधिकार (9) जीवित स्टाक (10) वाहन

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

अनुसूची भाग 1 के अनुसार
ऊर्ध्वाधर रूप में चिट्ठे का प्रारूप
कम्पनी का नाम

स्थिति विवरण पत्र

	अनुसूची क्र.	चालू वर्ष के आंकड़े	गत वर्ष के आंकड़े
I कोषों के स्रोत		रुपये	रुपये
1 अंशधारियों का कोष			
(अ) पूंजी		—	—
(ब) संचय एवं आधिक्य		—	—
2 ऋण कोष			
(अ) सुरक्षित ऋण		—	—
(ब) आरक्षित ऋण		—	—
	कुल		
II कोषों को प्रयोग			
1 स्थाई सम्पत्तियां		—	—
(अ) सकल समूह		—	—
(ब) घराया-ह्रास			
(स) शुद्ध समूह			
(द) पूंजी चालू कार्य			
2 विनियोग			

3 चालू सम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम			
(अ) स्टॉक		—	—
(ब) विविध देनदार		—	—
(स) रोकड़ एवं बैंक शेष		—	—
(द) चालू सम्पत्ति अन्य			
(इ) ऋण व अग्रिम			
कुल			
घटाईए – चालू दायित्व एवं प्रावधान			
(अ) दायित्व		—	—
(ब) प्रावधान			
शुद्ध चालू सम्पत्तियां			
4. अ. विविध व्यय		—	—
ब. लाभ—हानि खाता		—	—
कुल योग रुपये			

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 5 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 16. साझेदारी के विघटन एवं फर्म के विघटन में अंतर

क्र.	आधर	साझेदारी का विघटन	फर्म का विघटन
1	व्यापार का बंद होना	साझेदारी के विघटन में व्यापार बंद नहीं होता है।	फर्म के विघटन में व्यापार बंद कर दिया जाता है।
2	संबंध विच्छेद	साझेदारी के विघटन की दशा में एक साझेदार के संबंध विच्छेद होते हैं।	फर्म के समापन पर सभी साझेदारी के संबंध विच्छेद हो जाते हैं।

3	हिसाब—किताब	साझेदारी के समापन पर एक साझेदार का हिसाब—किताब किया जाता है।	इसमें सभी साझेदारों का हिसाब—किताब किया जाता है।
4	कारण	यह साझेदार की मृत्यु पागल व अवकाश आदि कारणों से होता है।	यह ठहराव, न्यायालय अकस्मिक घटना आदि कारणों से होता है।
5	प्रभाव	एक पर पड़ता है।	सभी साझेदारों पर पड़ता है।
6	अनिवार्यता	साझेदार के समापन पर फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है।	फर्म के समापन से साझेदारी भी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

विवरण	राशि	विवरण	राशि
To देनदार खाता	10000	By लेनदार खाता	12000
To स्टॉक खाता	40000	By रोकड़ खाता	78800
To प्लॉट खाता	20000	By साझेदारों के	
To फर्नीचर खाता	8000	पूँजी खाता	
To ख्याति खाता	8000	(A) 5200	
To रोकड़ खाता (लेनदार)	11400	(B) 2600	7800

To रोकड़ खाता (समापन व्यय)	1200		
	98600		98600

साझेदारों के पूंजी खाते

Dr.

विवरण	A	B	विवरण	A	B
To वसूली खाता	5200	2600	शेष आ / ला	40000	20000
To रोकड़ खाता	34800	17400			
	40000	20000		40000	20000

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 17. अंशों का हरण करने से पहले तक निश्चित प्रक्रिया अपनाती होती है जो निम्नानुसार है –

1. सर्वप्रथम कम्पनी सचिव ऐसे सदस्यों की सूची बनाकर संचालक मण्डल के सामने रखता है। जिन्होंने भुगतान नहीं किया।
2. संचालक मंडल में जब्ती के आशय प्रस्ताव रखा जाता।
3. सचिव प्रस्तावित अंशधारियों को बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान हेतु सूचना 14 दिन पूर्व भेजता है।
4. दूसरा नोटिस भेजा जाता है।
5. अंशधारी फिर भी याचना का भुगतान नहीं करता है तो हरण प्रस्ताव पास किया जाता है।

6. अंशधारी को अंश प्रमाण पत्र वापस मांगने हेतु नोटिस दिया जाता है।
7. अंशधारियों का नाम सूची से काटकर सूचना समाचार पत्र में दी जाती है।

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

1. Share Capital A/c Dr. 10,000

To Share first call	2000	
To share sec. & final Call	3000	
To share forfeiture	5000	

(being 1000 share forfeited)
2. Bank A/c Dr. 9000

Share forfeited A/c	Dr. 1000	
To share capital		10000

(being 1000 share re-issued)
3. Share forfeiture A/c Dr. 4000

To capital Reserve		4000
--------------------	--	------

(Being forfeited amount transfer of captal A/c)

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 18.

A पंजीयन के आधार पर ऋण पत्र –

1. **रजिस्टर्ड ऋण पत्र :-** पंजीकृत ऋण पत्रों के धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं अर्थात् मूलधन और ब्याज का भुगतान अन्हीं ऋणपत्रधारियों को किया जाता है जिनके नाम उक्त में रजिस्टर में दर्ज है।
2. **वाहक ऋण पत्र :-** ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरण हो जाता है इनके ब्याज का भुगतान धारक को ही किया जाता है।

B सुरक्षा के आधार पर

1. सुरक्षित ऋणपत्र :- वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं।
2. असुरक्षित ऋणपत्र :- वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारी को ऋण तथा ब्याज के भुगतान के लिए जमानत या प्रतिभूति प्राप्त नहीं होती है।

C अवधि के आधार पर –

1. शोध्य ऋणपत्र :- ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है।
2. अशोध्य ऋणपत्र :- ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी के जीवनकाल में भुगतान नहीं होता है।

D शोधन विधि के आधार पर –

1. परिवर्तनशील ऋणपत्र
2. अपरिवर्तनशील ऋणपत्र

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

Bank	A/c	Dr.	80000	
	To 5% Deb. App.			80000
(being app money received)				
5% Deb. App		Dr.	80000	
	To 5% Debunture			80000
(being 5% Deb. App. money tender to Deb a/c)				
5% Deb. Allotment	A/c	Dr.	200000	
	To 5% Debeuture			160000
	To 5% Deb. premium			40000
(being allotment due with primum)				
Bank	A/c	Dr.	200000	
	To 5% Deb Allotment			200000
(being allot money rec.)				
5% Deb call	A/c	dr.	160000	

To 5% debenture	160000
(being call money due)	
bank	A/c Dr. 160000
To 5% Deb I & II call	160000
(being call money received)	

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 19. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व निम्नानुसार है –

- 1. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन :-** प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अपना स्थिति विवरण तथा आय विवरण तैयार करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक वैधानिक आवश्यकता है।
- 2. ऋण प्राप्त करने में सुविधा :-** वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। क्योंकि वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृत करने पर वित्तीय विवरणों का गहन अध्ययन करती है।
- 3. कर दायित्व का अनुमान किया जा सकता है :-** वित्तीय विवरण करानुमान कानून के अनुसार ही तैयार किये जाते हैं। इससे करों का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है।
- 4. व्यवसाय की प्रगति :-** वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यवसाय के विस्तार एवं विकास में प्रबंध के लिए सहायक सिद्ध होता है।

5. **विनियोग कर्ताओं के लिये उपयोगी :-** वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विनियोग कर्ताओं के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। विनियोक्ता किसी व्यवसायिक उपक्रम में अपने धन का विनियोग करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा उपार्जन क्षमता संतोष जनक हो।

6. **भावी नियोजन तथा पूर्वानुमान में सहायक :-** वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से भावी योजनाओं को तैयार करने तथा पुर्वानुमान लगाने के उपयोगी तथ्य प्राप्त होते हैं।

प्रत्येक सही बिन्दु को समझाने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

Comprative income statement

for the year ended 31st march 2008 and 31st march 2009

Perticuler	2008	2009	absolute change	Percentage change
Net sales	15000	20000	5000	33.33
Less cost of good sold	8000	9000	1000	12.5
Gross profit	7000	11000	4000	57
less operating exp	1000	1200	200	20
administrative exp	800	1000	200	25
operating profit	5200	8800	3600	69.23
add non operating income	400	300	100	25
less non operating exp	200	200	-	-
net profit before tex	5400	8900	3500	64.8

less tax	1250	1500	250	20
Net profit of the tax	4150	7400	3250	78.31

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

उत्तर 20. रोकड़ बहाव विवरण एवं रोकड़ बजट में अंतर

क्र.	अंतर का आधार	रोकड़ बहाव	रोकड़ बजट
1.	अवधि संबंध	रोकड़ प्रवाह विवरण बीते हुए समय के लिये बनाया जाता है।	रोकड़ बजट सदैव भविष्य की अवधि के लिये बनाया जाता है।
2.	उद्देश्य	किन साधनों से रोकड़ प्राप्त एवं उनका उपयोग कहां किया गया।	भविष्य में रोकड़ कहां से प्राप्त होगी और कितनी होगी।
3.	प्रकृति	पिछली अवधि की वित्तीय स्थिति विश्लेषण	भविष्य की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है।
4.	समंक प्रकृति	वास्तविक समकों के आधार पर तैयार किया जाता है।	अनुमानित या काल्पनिक समकों के आधार पर तैयार
5.	आधार	दो अवधि के चिट्ठों के आधार पर तैयार किया जाता है।	पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।

6.	वर्गीकरण	इसे तीन वर्गों संचालन क्रियाओं, विनियोग क्रियाओं एवं वित्तीय संबंधी क्रियाओं में वर्गीकृत करके बनाया जाता है।	इसे वर्गीकृत करके नहीं बनाया जाता है।
----	----------	---	---------------------------------------

प्रत्येक सही छः अंतर पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।

अथवा

Calculation of Net cash flow from operating activities

(Indirect Method)

	Rs.	Rs.
Net Profit before tax		7,500
Add: non-cash and non operating charges:		
Depreciation of plant		
Loss on sale of plant	1,800	
	700	
Less: non-cash non operating credits:		10,000
Intrest received	2,500	
Profit on sale of long term investment	2,500	
Operating profit before working capital change		5,000
Add: Increase in current liabilities		<u>20,000</u>
		25,000
Less: Increase in current assets		10,000
Net chas flow from oerating activities		15,000

उपरोक्तानुसार वर्णन करने पर कुल 6 अंक प्राप्त होंगे।
